



Dynamic Portfolio Management & Services Ltd.

Regd. Office: 1403, Vikram Tower 16, Rajendra Place, New Delhi-110008,
Phone: 9017255300 Website: www.dynamicwealthservices.co.in,
Email: dpms.kolkata@gmail.com, CIN: L74140DL1994PLC304881

Date: 11th February 2023

To,

BSE Limited
(Department of Corporate Affairs)
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort, Mumbai-400001

Reg.: Scrip Code 530779

Subject: Intimation under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copy of the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended 31st December 2022, published in Business Standard (English) & Hari Bhoomi (Hindi) Newspaper dated 11th February 2023. The Results were approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on Friday, 10th February 2023.

This is for your information & records.

For Dynamic Portfolio Management & Services Limited




Sakshi Gaur
Company Secretary

Encl.: as above

E-AUCTION NOTICE

SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTIES THROUGH E-AUCTION (ONLINE AUCTION) UNDER RULES 8(6) & (9) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002

Notice is hereby given to the effect that the immovable properties described herein, taken possession under the provisions of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and Security Interest (Enforcement) Rules 2002, will be sold through e-auction on the following terms & conditions. E-auction arranged by the service provider M/s Canbank Computer Services Limited (CCSL) through the website www.indianbanksale.com on 13.03.2023, Time 2.30 pm to 3.30 pm (With unlimited extension of 5 minutes duration till the conclusion of the sale).

| S. No. | Name and Address of the Secured Creditor & Address in which the tender document to be submitted | Name and Address of the Borrower | Total Liabilities as on | Details of Property/ies | Reserve Price & EMD Last Date and Time of Depositing EMD Amount | Amount of shall be deposited through RTGS/NEFT/ Fund Transfer to credit of account of branch as mention below | Date & Time of E-Auction & Property Inspection |
|--------|---|--|--|---|--|---|---|
| 1. | Canara Bank, Pali-II branch, Pali-306401 (Ph. No 09413333751) e-mail id cb18420@canarabank.com | Sushil Kumar Singh s/o Virendra Singh & Asha Singh w/o Sushil kumar Singh (Borrower) Residing at B 6 Sidhi Vinayak Apartment, Marudhar Nagar, Pali and 227 Marudhar Nagar Pali-306401 | 10.02.2023: Rs. 14,82,925/- (Rs. Fourteen Lakhs Sixty Two Thousand Nine Hundred and Twenty Five)+ further interest and other expenses. | Residential property, Flat no. B-6 (third floor) "Sidhi Vinayak Apartment" Khasra No. 109/1, Marudhar Nagar, Pali (Rajasthan) Measuring area 884 Sqft. standing in the name of Sh. Sushil Kumar S/o Sh. Virendra Singh (Borrower) bounded by: On the North: Other's Plot, On the South: Passage, On the East: Passage, On the West: Other's Plot. | Rs. 11,97,900/- (Rs. Eleven lakhs Ninety Seven Thousand Nine Hundred only) | Canara Bank, Pali-II branch, A/c No 209272434 IFSC Code: CNRB0018420 on or before 10.03.2023, 5.00 PM (offline or online) | 13.03.2023 2.30 pm to 3.30 pm 10.03.2023 3.00 pm to 5.00 pm Bid Multiple Amount of Rs. 10,000/- |
| 2. | Canara Bank, Pali-II branch, Pali-306401 (Ph. No 09413333751) e-mail id cb18420@canarabank.com | Uma Bhardwaj w/o Dr. Devendra Nath (Borrower) Residing at 51, Venkatesh Marg, Ward number 5, Pali-Rajasthan-306401, Dr. Devendra Nath Bhardwaj S/o Niranjan Prasad Residing at Co Balaji multispeciality hospital, 20 E Kankpura Bus Stand Sirsi Road, Jaipur-Rajasthan-302021, Nitish Bhardwaj s/o Dr. Devendra Nath (Guarantor) Residing at 51, Venkatesh Marg, Ward number 5, Pali-Rajasthan-306401 | 10.02.2023: Rs. 8,48,115/- (Rs. Eight Lakhs Forty Eight Thousand and One Hundred and Fifteen)+ further interest and other expenses. | Residential property, House situated at Rajendra nagar, Ralko ki dhani, Plot no. 25, Pali Rajasthan-306401 Measuring area 800 Sqft. standing in the name of Smt. Uma Bhardwaj W/O Sh. Devendra Nath Bhardwaj (Borrower) bounded by: On the North: Other Plot, On the South: Plot no. 24, On the East: vacant land without compound walls, On the West: Road | Rs. 7,20,000/- (Rs. Seven Lakhs Twenty Thousand only) Rs. 72,000/- (Rs. Seventy Two thousand only) on or before 10.03.2023, 5.00 PM (offline or online) | Canara Bank, Pali-II branch, A/c No 209272434 IFSC Code: CNRB0018420 on or before 10.03.2023, 5.00 pm. | 13.03.2023 2.30 pm to 3.30 pm 10.03.2023 3.00 pm to 5.00 pm Bid Multiple Amount of Rs. 10,000/- |

Other Terms & Conditions: 1. The property will be sold in "as is where is and as is what is" basis including encumbrances, if any. There is no encumbrance to the knowledge of the bank. 2. The asset will not be sold below the Reserve Price. 3. Auction/bidding shall be only by "Online Electronic Bidding" through the website www.indianbanksale.com. 4. The contact details of the service provider M/s Canbank Computer Services Pvt Ltd, Contact no. - above mentioned, email id: eauction@ccsl.co.in. 5. The assets can be inspected, on/before above mentioned table between 3.00 pm to 5.00 pm after consulting branch officials. 6. The successful bidder shall deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD already paid), immediately on declaring him/her as the successful bidder and the balance 75% within 15 days from the date of confirmation of sale. If the successful bidder fails to pay the sale price as stated above, the deposit made by him shall be forfeited. 7. All charges for conveyance, stamp duty and registration charges etc., as applicable shall be borne by the successful bidder only. 8. The borrower/guarantor are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto date interest and ancillary expenses before the date of e-auction, failing which the property will be auctioned/sold and balances dues. 9. Further details available on Canara Bank website: www.canarabank.com. 10. For Sale proceeds above Rs. 50 Lacs (Rupees Fifty Lacs), TDS shall be payable at the rate 1% of the sale amount, which shall be payable separately by the successful buyer. This publication of e-auction notice is made for the general public to participate in e-auction and is also an advance notice to the Borrowers/Partners/Guarantors/Mortgagors/Directors pertaining to the above mentioned accounts in terms of the stipulated guidelines of the SARFAESI Act. "

Place: Pali-II Date: 10.02.2023

AUTHORISED OFFICER, CANARA BANK

AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED

Regd. and Corporate Office address: Fularum Business Centre, 001 & 002, A Wing, Next to Hyatt Regency Hotel, Sahar Road Andheri (East), Mumbai-400 099 Maharashtra.

AVANSE FINANCIAL SERVICES

APPENDIX-IV [Rules 8(1)]

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Avanse Financial Services Ltd., Under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Said Act") and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rules 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("said Rules") issued a Demand Notice dated 25/11/2022 in Loan Account bearing number DELCS00189551 ("Loan Account") respectively calling upon the Borrowers/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors being, (i) Jawahar Lal Lodhi Siksha Samiti; (ii) Kamlesh Devi; (iii) Laxman Prasad; (iv) Ramautar Verma; (v) Vishwas; (vi) Vivek Kumar Verma; (vii) Hardev Vidya Mandir Samiti; (viii) K. D. Jankalyan Shiksha Samiti; (ix) Samajik Jan Kalyan Shiksha Samiti; (x) Buddh Pal Singh; (xi) Manoj Kumar Verma (Collectively to be referred to as "Borrowers") to repay the amount mentioned in the aforesaid demand notice outstanding as on 25th November 2022 inclusive of interest charged up to 25th November 2022 and further interest thereon together with incidental expenses, cost, charges etc., till the date of final payment and/or realization within 60 days from the date of receipt of the said notice (details also described in the table given below):

| Borrowers/Co-Borrowers/Mortgagors | Loan Account Number | Amount Outstanding as on 25th November 2022 |
|--|---------------------|--|
| 1. Jawahar Lal Lodhi Siksha Samiti 2. Kamlesh Devi, 3. Laxman Prasad 4. Ramautar Verma, 5. Vishwas, 6. Vivek Kumar Verma, 7. Hardev Vidya Mandir Samiti 8. K. D. Jankalyan Shiksha Samiti 9. Samajik Jan Kalyan Shiksha Samiti 10. Buddh Pal Singh, 11. Manoj Kumar Verma | DELCS 00189551 | Rs. 37,79,014/- (Rupees Thirty Seven Lakh Seventy Nine Thousand & Fourteen Only) |

The aforesaid Borrowers having failed to repay the aforesaid amounts, notice is hereby given to the Borrowers/Co-borrowers/Guarantors/Mortgagors and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the Immovable property described in the Schedule herein ("Immovable Property") in exercise of the powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with rule 8 of the said rules on this 08th Day of February the year 2023.

The Borrowers/Co-borrowers/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the aforesaid Immovable Property and any dealings with the Immovable Property will be subject to the charge of the Avanse Financial Services Ltd., for an aggregate amount of Rs. 37,79,014/- (Rupees Thirty Seven Lakh Seventy Nine Thousand & Fourteen Only) as on 25th November 2022 in the loan agreement no. DELCS00189551 and further interest thereon till the date of final payment and/or realization in aforesaid Loan Account.

The Borrowers/Co-borrowers/Guarantors/Mortgagors' attention is invited to the provisions of Section 13(8) of the Said Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Description of the Mortgaged Property: All that right, title and interest of property located at 1-Khasra No. 682/1 ad-measuring 0.6340 Hec including land & buildings of Jawahar Lal Lodhi Degree College, situated at Vill- Madkara, Jagannanthpur, Aonla, Bareilly, Uttar Pradesh AND 2- All that piece & parcel of property being Gata No.2678 ad-measuring 0.1770 hec including land & buildings of Baba Hardev Singh Inter College, situated at Vill- Labhari Majra Gurugwan, Tehsil-Aonla-Distt. Bareilly, Uttar Pradesh AND 3- All that piece & parcel of property ad-measuring 0.088 Hec bearing Gata No.2678 including land & buildings of Baba Hardev Singh Inter College, Vill- Labhari Majra Gurugwan, Tehsil-Aonla-Distt. Bareilly, Uttar Pradesh bounded by-On the East: NA, On the West: NA, On the North: NA, On the South: NA.

Sd/-
Date: 08-02-2023
Place: Bareilly

Authorised Officer
For Avanse Financial Services Ltd.

Dynamic Portfolio Management & Services Limited

CIN: L74140DL1994PLC304881, Website: <http://dynamicwealthservices.co.in/>
Phone: 9017255300, Email: dpm.kolkata@gmail.com
Registered Office: 1403, Vikram Tower 16, Rajendra Place, New Delhi - 110008

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED QUARTER ENDED 31ST, December, 2022

(₹ In Lakhs)

| Sl. No. | Particulars | For The Quarter Ended As on 31.12.2022 | Corresponding 3 Months ended in the previous Year as on 31.12.2021 | Preceding 3 Months Quarter Ended: 30.09.2022 | Year to Date Ending as on 31.12.2022 | Previous Year Ending 31.12.2021 |
|---------|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited |
| 1 | Total Income from Operations (net) | 22.55 | 18.67 | 18.95 | 60.29 | 92.47 |
| 2 | Net Profit / (Loss) For the period before tax (before Extraordinary items) | 2.98 | 2.92 | 7.28 | 18.78 | 12.94 |
| 3 | Net Profit / (Loss) For the period before tax (after Extraordinary items) | 2.98 | 2.92 | 7.28 | 18.78 | 12.94 |
| 4 | Net Profit / (Loss) For the period after tax (after Extraordinary items) | 0.13 | 2.13 | 5.44 | 13.47 | 6.68 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)) | 0.13 | 2.13 | 5.44 | 13.47 | 6.68 |
| 6 | Equity share capital @ Rs. 10/- each | 1,161.29 | 1,161.29 | 1,161.29 | 1,161.29 | 1,161.29 |
| 7 | Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year) | - | - | - | - | - |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10 each) | | | | | |
| | Basic : (Rs.) | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| | Diluted : (Rs.) | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.06 |

Notes:
1) The above quarterly results have been approved by the audit committee and approved by the Board of Directors in its board meeting held as on 10th January 2023 and the same is filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2) The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com and on the Company's website i.e. www.dynamicwealthservices.co.in
3) The above financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016 and accordingly, these financial results together with the results for the comparative reporting period have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), and other recognized accounting practices generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "Listing Regulations"). Any application guidance / clarifications / directions issued by the Reserve Bank of India or other regulators are implemented as and when they are issued / applicable.
4) In compliance with Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a limited review of financial results for the quarter ended 31st December 2022 has been carried out by the Statutory Auditors.
5) The Company is in the business of NBFCA and as such there are no separate reportable segments as per Indian Accounting Standard "Operating Segments" (Ind AS 108) and thus, segment reporting under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is not applicable. Hence, information relating to primary segment (including segment revenue, segment results, segment assets and segment liabilities) are not required to be disclosed.
6) Previous period / year figures have been regrouped / reclassified, wherever found necessary, to confirm to current period / year classification.

For and on behalf of the Board of Directors
Dynamic Portfolio Management & Services Limited
Sd/-
KAILASH CHANDRA AGARWAL
Director
DIN-08650459

Place : New Delhi
Date : 10.02.2023

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that due to certain unavoidable circumstances, the Public Auction (of pledged ornaments-NPA accounts) by our client M/s. Muthoot Finance Ltd. scheduled for 7th February 2023 stands postponed and re-scheduled for 17th March 2023. The place and time of Public Auction shall remain the same, as already notified to the concerned Borrowers. In case of any clarification, the interested persons may contact the concerned Branch office of our client.

Kohli & Sobti Advocates,
A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024

Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact Email ID: auctiondelhi@muthootgroup.com or Call at 7834886464,7994452461.

INDIAN OVERSEAS BANK

ARMB, SCO 26, 2nd Floor, Madhya Marg, Sector 7-C, Chandigarh-160019, Ph.: 0172-2790035, E-Mail: job2575@ob.in

E-AUCTION SALE NOTICE TO GENERAL PUBLIC

Date & Time of E-Auction: 23.02.2023 (11:00 A.M. to 04:00 P.M.)

SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE & IMMOVABLE PROPERTIES

Under Proviso to Rule 8(6) and Rule 6(2) of Security Interest (Enforcement) Rules E-Auction Sale Notice for Sale of Movable & Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) and Rule 6(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Movable & Immovable Property Mortgaged / Hypothecated / Pledged / Charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Indian Overseas Bank (Secured Creditor), will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" on 23.02.2023.

| Sr. No. | Name of Borrower | Date of Demand Notice and Dues (with further interest and cost till realization) | Description of Property alongwith Name of Mortgagor (owner of the property) | Reserve Price (Plus applicable TDS under section 194A and section 194I. A of Income Tax Act 1961 if applicable) EMD Amount Incremental Bid Amount |
|---------|--|--|---|---|
| 1. | (1) M/s Shankar Ispat Private Limited (2) Mr. Prashant Goyal (Director / Guarantor) R/o House No. 794, Sector 28, Faridabad, Haryana (3) Mr. Kussahal Mohan Arora S/o Shyam Arora, R/o 201, Sector 16-A, Faridabad, Haryana (4) Mrs. Veena Arora W/o Kussahal Mohan Arora, R/o 201, Sector 16-A, Faridabad, Haryana. | 23.11.2013 & Rs. 14,48,94,331/- as on 31.12.2022 | FARIDABAD - Industrial Plot & Building at Plot No. 43, Sector 27-A, Urban Estate Faridabad Haryana standing in the name of M/s Naini Export measuring 2100 Sq. Yards. Sale Deed No. 5268 Dated 05.08.2004. Bounded:- On the North: Entry & Road; On the South: Govt. Land / Badkhal Flyover; On the East: Plot No. 44; On the West: Plot No. 42. (SYMBOLIC POSSESSION). | Rs. 11,31,48,325/- Rs. 1,13,14,832.50 Rs. 50,000/- |

Outstanding Govt. Dues if any - Not Known. EMD Start Date - 13.02.2023, Last Date of Deposit of EMD - 27.02.2023, Date and Time of Inspection of Property - 17.02.2023 onwards between 11:00 P.M. to 4:00 P.M., Date and Time of E-Auction - 23.02.2023, 11:00 A.M. to 04:00 P.M. The intending Bidders / Purchasers are requested to register on portal (<https://www.mstcauction.com>) using their Mobile Number and E-Mail ID. Further, they are requested to upload requisite KYC Documents. Once the KYC Documents are verified by E-Auction Service Provider (may take 2 Working Days), the intending Bidders / Purchasers has to transfer the EMD amount using online mode in his Global EMD Wallet by 27.02.2023 before the E-Auction Date and Time in the portal. The registration, verification of Documents and transfer of EMD in Wallet must be completed well in advance, before auction. The intending Bidders / Purchasers are required to participate in the E-Auction process at E-Auction Service Provider's Website - <https://www.mstccommerce.com> (Contact Phone & Toll free Numbers 079-41072412 / 411 / 413 or 1800-103-5342). Payment of sale consideration by the successful bidder to the bank will be subject to TDS under Section 194-1A of Income Tax Act 1961 and TDS is to be made by the successful bidder only at the time of deposit of remaining 75% of the bid amountful deposit of BID amount. Further TDS under section 194(O) of IT Act 1961 shall be borne by the successful purchaser if applicable.

For terms and condition, <https://ibapi.in> or call the undersigned at Phone: 0172-2790035, 7078122033, 9478051062, 9779250112. This publication is also a 15 Days notice to the Borrower / Mortgagors & Guarantors of the above loans under Rule 8(6) / Rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 of the said loan about holding of E-Auction on the above mentioned date.

Date: 10.02.2023 Place: Chandigarh

AUTHORIZED OFFICER

A VST GROUP ENTERPRISE

CIN- L34101KA1967PLC001706

Registered office: Plot No-1, Dyvasandra Indl Layout, Whitefield Road, Mahadevapura PO., Bengaluru 560 048 Ph: 080 - 67141111
e-mail: vstgen@vstractors.com. www.vstractors.com.

Un-Audited Financial Results for the Quarter/ Nine months ended December 31, 2022

(Rs. in Lakhs except EPS)

| Particulars | Quarter ended | | Nine Months ended | Year Ended |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | December 31, 2022 (Un-Audited) | December 31, 2021 (Un-Audited) | December 31, 2022 (Un-Audited) | March 31, 2022 (Audited) |
| Total income from operations | 21,369 | 20,844 | 68,382 | 85,386 |
| Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items) | 2,495 | 2,900 | 7,137 | 13,218 |
| Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items) | 2,495 | 2,900 | 7,137 | 13,218 |
| Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items) | 1,943 | 2,105 | 5,222 | 9,931 |
| Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | 1,984 | 2,102 | 5,238 | 9,924 |
| Equity Share Capital | 864 | 864 | 864 | 864 |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) | - | - | - | 74,090 |
| Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing & discontinued operations) basic & diluted | 22.49 | 24.36 | 60.44 | 114.95 |

The above is an extract of the detailed format of Quarter / Nine months ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Nine Month Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com, www.nseindia.com and <http://www.vstractors.com/investors/financial-results>)

These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as modified by Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016.

for and on behalf of the Board of Directors
(V.T. Ravindra)
Managing Director

Place: Bengaluru
Date: February 10, 2023

VISHNU CHEMICALS LIMITED

CIN: L85200TG1993PLC046359

9M

₹ 1055.0 Cr

43% YoY

TOTAL INCOME*

9M

₹ 181.3 Cr

67% YoY

EBITDA*

9M

₹ 100.9 Cr

91% YoY

PAT*

(*Nine Months Consolidated Basis)

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

(₹ In Lakhs)

| Sl. No. | Particulars | Standalone | | Consolidated | | | |
|---------|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | Quarter ended 31.12.2022 | Nine Months ended 31.12.2022 | Quarter ended 31.12.2021 | Quarter ended 31.12.2022 | Nine Months ended 31.12.2022 | Quarter ended 31.12.2021 |
| | | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited |
| 1 | Total income from operations (Net) | 29742.65 | 92285.54 | 25726.19 | 32523.35 | 105506.70 | 29784.36 |
| 2 | Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items) | 4199.44 | 12687.05 | 2786.00 | 4208.64 | 13684.33 | 3383.76 |
| 3 | Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items) | 4199.44 | 12687.05 | 2786.00 | 4208.64 | 13684.33 | 3383.76 |
| 4 | Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items) | 3175.34 | 9362.57 | 2041.51 | 3174.38 | 10093.18 | 2460.53 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | 3173.47 | 9356.20 | 2040.02 | 3172.51 | 10086.82 | 2459.78 |
| 6 | Paid-up Equity Share Capital (₹ 10/- each) | 1194.60 | 1194.60 | 1194.60 | 1194.60 | 1194.60 | 1194.60 |
| 7 | Earnings Per Share (of ₹10/- each) (not annualized) | | | | | | |
| | Basic (₹) | 26.58 | 78.37 | 17.09 | 26.57 | 84.49 | 20.60 |
| | Diluted (₹) | 26.58 | 78.37 | 17.09 | 26.57 | 84.49 | 20.60 |

Note: The above is an extract of the detailed format of Un-audited Standalone & Consolidated Financial Results for the third quarter and nine months ended December 31, 2022, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Un-audited Standalone & Consolidated Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on February 10, 2023. The full format of the same is available on the Stock Exchanges website i.e. www.bseindia.com, www.nseindia.com and also on Company's website www.vishnuchemicals.com

For and on behalf of the Board
For Vishnu Chemicals Limited
Sd/-
Ch. Krishna Murthy
Chairman & Managing Director
DIN: 00030274

Place: Hyderabad
Date: February 10, 2023

Regd. Off: Plot No. C-23, Road No. 8, Film Nagar, Jubilee Hills, Hyderabad - 500 096
Tel: 040-23396817, 23327723 / 29; Fax: 040-23314158, Website: www.vishnuchemicals.com; Email id: investors@vishnuchemicals.com

